



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2336]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 10, 2010/कार्तिक 19, 1932

No. 2336]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 10, 2010/KARTIKA 19, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2010

का.आ. 2764(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 465(अ), तारीख 26 अप्रैल 2002, द्वारा गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8अ के 183.500 कि.मी. से 362.160 कि.मी. भूखंड (बामनबोर से समाख्याली से गांधीधाम सेक्शन) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) को सौंपा था;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8अ के गारमोर-समाख्याली सेक्शन 254.000 कि.मी. से 306.000 कि.मी. (नया चैनेज 254.537 कि.मी. से 307.034 कि.मी.) (कुल लम्बाई 52.497 कि.मी.) तक के उपयोग के लिए नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट यानों के प्रकार पर उसके स्तंभ (3), (4), (5) और (6) में विनिर्दिष्ट दरों पर फीस उद्गृहीत करेगी और प्राधिकरण को शासकीय तौर पर या ठेकेदारों के माध्यम से, उक्त फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात् :—

सारणी

क्रम संख्या	यानों के प्रकार	एकतरफा यात्रा के लिए यान की फीस दर (रुपए में)	उसी दिन वापसी यात्रा के लिए यानों की फीस दर (रुपए में)	एक मास में 50 यात्राओं के लिए विधि-मान्य मासिक पास हेतु यानों की फीस दर (रुपए में)	मासिक पास के लिए यान की फीस दर (रुपए में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कार, जीप, वैन और हल्के मोटर यान	40	60	1335	—
2.	हल्के वाणिज्यिक यान, हल्के मालवाहक यान और मिनी बस	65	95	2155	—
3.	बस और ट्रक	135	205	4515	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	भारी निर्माण मशीनें, अर्थ मूविंग उपस्कर और बहुधुरीय यान (तीन से छह धुरी)	210	320	7080	—
5.	अधिक बड़े यान (सात या अधिक धुरी)	260	390	8620	—
6.	स्थानीय गैर-वाणिज्यिक यान	—	—	—	175

[फ. सं. भाराप्र/13013/526/09-10/सीओ/जीसी पालानपुर (254.0-306.0)]

एस. एस. गुलिया, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 2010

S.O. 2764(E).— Whereas, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 465 (E), dated the 26th April, 2002, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government entrusted the stretch from km. 183.500 to km. 362.160 (Bamanbore to Samakhiali to Gandhidham Section) of National Highway No. 8A in the State of Gujarat to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, the Central Government hereby levies the fee at the rates specified in columns (3), (4), (5) and (6) of the following Table, on the type of vehicles specified in column (2) thereof, for the use of the Garamore - Samakhiali Section from km. 254.000 to km. 306.000 (new chainage km. 254.537 to km. 307.034) (total length being 52.497 km.) of National Highway No. 8A in the State of Gujarat and authorises the Authority to collect either through its officials or through a contractor, the said fee, namely :—

TABLE

Sl. No.	Type of vehicle	Rate of fee for vehicles for one way trip (in rupees)	Rate of fee for vehicles for return trip in a day (in rupees)	Rate fee for vehicles for monthly pass valid for 50 Journeys in a month (in rupees)	Rate of fee for vehicles for monthly pass (in rupees)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	40	60	1335	—
2.	Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	65	95	2155	—
3.	Bus or Truck	135	205	4515	—
4.	Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MA V) (three to six axles)	210	320	7080	—
5.	Oversized Vehicles (seven or more axles)	260	390	8620	—
6.	Local non -Commercial Vehicles	—	—	—	175

[F. No. NHAI/13013/526/09-10/CO/GC Palanpur (254.0 - 306.0)]

S. S. GULIA, Director